



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 12.09.2023

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान – जारी करने का दिन : 2023-09-12 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-09-13	2023-09-14	2023-09-15	2023-09-16	2023-09-17
वर्षा (मीमी)	10.0	35.0	30.0	35.0	20.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	22.0	19.0	19.0	20.0
न्यूनतम तापमान(से.)	14.0	14.0	13.0	14.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	60	75	75	75
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	6	4	6	6
पवन दिशा (डिग्री)	70	70	70	70	70
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	8	6	6

### सम सारांश / चेतावनी:

आने वाले पांच दिनों में 17 सितंबर तक 10-35 मिमी तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 19.0 से 24.0 डिग्री सेल्सियस और 13.0-15.0 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा से 4-6 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। 12-16 सितंबर के बीच अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/आंधी चलने की संभावना है। चेतावनी: 12-16 सितंबर तक बिजली/गरज के साथ तीव्र बौछार की घटना के संबंध में एक पीला अलर्ट दिया गया है।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान आदि की जानकारी के लिए "मेघदूत ऐप" डाउनलोड करें बिजली संबंधी जानकारी पाने के लिए कृषि मौसम संबंधी सलाह और "दामिनी ऐप"। मेघदूत और दामिनी ऐप्स कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे उन्हें भारी वर्षा की स्थिति में कृषि गतिविधियों के संबंध में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

### लघु संदेश सलाहकार:

पिछले सप्ताह में भारी बारिश हुई थी और आने वाले पांच दिनों में बूदाबांदी से लेकर हल्की बारिश होगी, इसलिए खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए।

**फ़सल विशिष्ट सलाह:**

फ़सल	अवस्था	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	कल्ले फूटना/ परिपक्वता	खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए और वर्षा की स्थिति में किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए। कृषि कार्य पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।
रागी	कल्ले फूटना/ परिपक्वता	खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए और वर्षा की स्थिति में किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए। कृषि कार्य पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।
मक्का	वनस्पतिक विकास	जल जमाव और सिंचाई से बचना चाहिए। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए।
मूँग	वनस्पतिक विकास/ परिपक्वता	रासायनिक छिड़काव से बचें और खेत में पानी जमा होने से रोकें। जल निकासी के उचित उपाय किये जाने चाहिए। तोड़ी हुई फलियों का भण्डारण करें।
काला चना	वनस्पतिक विकास/ परिपक्वता	रासायनिक छिड़काव से बचें और खेत में पानी जमा होने से रोकें। जल निकासी के उचित उपाय किये जाने चाहिए। तोड़ी हुई फलियों का भण्डारण करें।
सोयाबीन	फूल/फली बनना	रासायनिक छिड़काव से बचें और खेत में पानी जमा होने से रोकें। जल निकासी के उचित उपाय किये जाने चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	फूल/फली बनना	रासायनिक छिड़काव से बचें और खेत में पानी जमा होने से रोकें। जल निकासी के उचित उपाय किये जाने चाहिए।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	अवस्था	बागवानी विशिष्ट सलाह
मूली	बुवाई	पूर्वानुमानित मौसम के तहत फसल की बुआई करने से बचना चाहिए और पहले से ही बोई गई फसल में उचित जल निकासी बनाए रखनी चाहिए।
सेम/बाकला	बुवाई	पूर्वानुमानित मौसम के तहत फसल की बुआई करने से बचना चाहिए और पहले से ही बोई गई फसल में उचित जल निकासी बनाए रखनी चाहिए।
मिर्च	परिपक्वता/तुड़ाई	पकी हुई फसल की तुड़ाई कर लेनी चाहिए। खड़ी फसल में उचित जल निकासी का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से बचना चाहिए।
आलू	बुवाई	पूर्वानुमानित मौसम के तहत फसल की बुआई करने से बचना चाहिए और पहले से ही बोई गई फसल में उचित जल निकासी बनाए रखनी चाहिए।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मादा बछियों का माँ से दूध छः महीने के बाद ही छुड़वाना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो सके।
बकरी	ग्रामीण क्षेत्र में भेड़ एवं बकरियों को टिटनेस टॉक्सॉइड के 2 टिकके एक माह पर, दूसरा 5 माह पर अवश्य लगवायें, जिससे नवजात भेड़ों को टिटनेस नमक बीमारी न हो।